

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 780 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 नवम्बर 2019 — कार्तिक 27, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

आदेश

क्रमांक 11821/3401/21-ब/छ. ग./2019. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विवेक कोनेर, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सूरजपुर, जिला सूरजपुर की सेवाएं समाप्त करते हुए उनके स्थान पर श्री योगेन्द्र सिंहदेव को शासन की ओर से पुरस्कार करने के लिए शासकीय अभिभाषक, सूरजपुर, जिला सूरजपुर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें लोक अभियोजक, सूरजपुर, जिला सूरजपुर के पद पर भी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ. ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. पी. सोहगौरा, अवर सचिव.